

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022—आषाढ़ 24, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 6-4-2022

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु तह. डौण्डी जिला बालोद एवं तह. कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	डौण्डी	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	बस्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	बिलासपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
26.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .—** जुताई बोनी व रोपाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई .—** जिला बेमेतरा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई .—** कुछ जिलों में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .—** जिला रायपुर, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, मुंगेली व गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में फसल की हालत सामान्य है. जिला गरियाबंद व जांजगीर-चाम्पा में फसल की हालत सुधरी है. जिला धमतरी में चना, उड़द, गेहूँ, मटर, अलसी, राई-सरसों व लाख-तिवड़ा फसल की हालत कम होने की संभावना है. जिला कबीरधाम में गेहूँ, चना, लाख, सरसों, मटर, मसूर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में धान व मक्का की हालत सामान्य है. जिला कांकेर में गेहूँ, मक्का, चना, मटर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, गेहूँ, चना, मटर, लाख-तिवड़ा, उड़द, मूंग, कुल्थी, राई-सरसों एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में धान, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द व लाख की स्थिति सामान्य है. जिला सरगुजा में गेहूँ, चना, मटर, सरसों व अलसी फसल की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों व आलू फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख, मसूर, मटर, गन्ना, तिल व गेहूँ फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गेहूँ व चना फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति .—** सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतीहर श्रमिक .—** खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 6-04-2022

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है, फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. गोबरानवापारा	..				
5. तिल्ला	..				
6. खरोरा	..				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पलारी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लवन	..		(2) ..		
4. भाटापारा	..				
5. सिमगा	..				
6. बिलाईगढ़	..				
7. कसडोल	..				
जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..		(2) ..		
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
*जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पिथौरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बागबाहरा	..		(2) ..		
4. सरायपाली	..				
5. बसना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..		4. (1) चना, उड़द, गेहूँ, मटर, अलसी, राई-सरसों, लाख- तिवड़ा की फसल कम होने की संभावना है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..				
4. नगरी	..				
5. भखारा	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है, गेहूँ, चना की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..				
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. कीट प्रकोप की शिकायत है, उपचार जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..		4. (1) गेहूँ व चना फसल की कटाई जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेरला	..				
4. बेमेतरा	..				
5. नवागढ़	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	..		4. (1) गेहूँ फसल की कटाई जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	..				
4. डौंडी	22.2				
5. डौंडीलोहारा	..				
6. अर्जुन्दा	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है, (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	..				
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अं. चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
10. गण्डई	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. कीट प्रकोप की शिकायत है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..		4. (1) गेहूँ, चना, लाख, सरसों, मटर, मसूर फसल की हालत सामान्य है, रबी फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..				
4. पंडरिया	..				
5. रेंगाखारकला	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर					
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	..				
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. माकड़ी	..		4. (1) धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	..				
5. बड़ेराजपुर	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) धान, मक्का, गेहूँ, चना, मटर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, कुल्थी राई-सरसों व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
जिला-कांकेर-उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) धान, गेहूँ, मक्का, चना, मटर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, तिल, मूंगफली व अन्य फसलों की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा-दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	4.2				
5. बड़ेबचेली	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. गादीरास	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) फसल की हलात सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम्	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कोटा	..				
5. तखतपुर	..				
जिला-गौरेला	मिलीमीटर				
पेण्ड्रा-मरवाही					
1. पेण्ड्रारोड	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चाम्पा					
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. अकलतरा	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..				
5. पामगढ़	..				
6. चाम्पा	..				
7. सक्ती	..				
8. जैजैपुर	..				
9. मालखरौदा	..				
10. डभरा	..				
11. शिवरीनारायण	..				
12. बम्हनीडीह	..				
13. सारागांव	..				
14. नया बाराद्वार	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) धान, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		मटर, उड़द व लाख फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. दर्ी	..		हालत सामान्य है.		
5. पाली	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. हल्दीबाजार	..				
7. पोड़ीउपरोड़ा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. खड़ी फसल पर कीड़ों का आक्रमण नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, सरसों व अलसी फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लुण्ड्रा	..				
4. लखनपुर	..				
5. उदयपुर	..				
6. सीतापुर	..				
7. बतौली	..				
8. मैनपाट	..				
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	..		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	..				
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
7. लटोरी	..				
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, आलू व राई सरसों फसल की हालत सामान्य है. अलसी व सरसों की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाडफनगर	..				
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया-बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा फसल की हालत सामान्य है, फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..				
4. खड़गवां	..				
5. चिरमिरी	..				
6. भरतपुर	..				
7. केलहारी	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) लाख, मसूर, मटर, गन्ना, तिल, गेहूँ, फसल की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..				
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				
10. सरिया	..				
11. छाल	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) गेहूँ व चना फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				
9. सन्ना	..				

*टीप.— जिला महासमुंद से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-04-2022

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	बस्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	दंतेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	बिलासपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
26.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .**— जुताई बोनी व रोपाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई .**— जिला बेमेतरा, सूजरपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई .**— कुछ जिलों में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .**— जिला रायपुर, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, मुंगेली व गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में फसल की हालत सामान्य हैं. जिला गरियाबंद व जांजगीर-चाम्पा में फसल की हालत सुधरी है. जिला धमतरी में चना, उड़द, गेहूँ, मटर, अलसी, राई-सरसों व लाख-तिवड़ा फसल की हालत कम होने की संभावना है. जिला कबीरधाम में गेहूँ, चना, लाख, सरसों, मटर, मसूर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में धान व मक्का की हालत सामान्य है. जिला कांकेर में धान, गेहूँ, मक्का, चना, मटर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, गेहूँ, चना, मटर, लाख-तिवड़ा, उड़द, मूंग, कुल्थी, राई-सरसों एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में धान, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द व लाख की स्थिति सामान्य है. जिला सरगुजा में गेहूँ, चना, मटर, सरसों व अलसी फसल की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों व आलू फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख, मसूर, मटर, गन्ना, तिल व गेहूँ फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गेहूँ व चना फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति .**— सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा .**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति .**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतीहर श्रमिक .**— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-04-2022

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. गोबरानवापारा	..				
5. तिल्दा	..				
6. खरोरा	..				
जिला-बलौदा-बाजार	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पलारी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लवन	..		(2) ..		
4. भाटापारा	..				
5. सिमगा	..				
6. बिलाईगढ़	..				
7. कसडोल	..				
जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
बिन्द्रानवागढ़					
1. गरियाबंद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..				
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पिथौरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..				
4. सरायपाली	..				
5. बसना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..		4. (1) चना, उड़द, गेहूँ, मटर, अलसी, राई-सरसों लाख- तिवड़ा की फसल कम होने की संभावना है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..				
4. नगरी	..				
5. भखारा	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य अंतिम चरण पर है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..				
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. कीट प्रकोप की शिकायत है, उपचार जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..		4. (1) गेहूँ व चना फसल की कटाई जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेरला	..				
4. बेमेतरा	..				
5. नवागढ़	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	..		(2) ..		
4. डौंडी	..				
5. डौंडीलोहारा	..				
6. अर्जुन्दा	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है, (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	..				
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अं. चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
10. गण्डई	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..		4. (1) गेहूँ, चना, लाख, सरसों, मटर, मसूर फसल की हालत सामान्य है, रबी फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..				
4. पंडरिया	..				
5. रंगाखारकला	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर					
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	..				
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. माकड़ी	..		4. (1) धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	..				
5. बड़ेराजपुर	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) धान, मक्का, गेहूँ, चना, मटर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, कुल्थी, राई-सरसों व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
जिला-कांकेर-उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) धान, गेहूँ, मक्का, चना, मटर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, तिल, मूंगफली व अन्य फसलों की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गाकोन्दल	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा-दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	..				
5. बड़ेबचेली	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. गादीरास	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम्	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कोटा	..				
5. तखतपुर	..				
जिला-गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही	मिलीमीटर				
1. पेण्ड्रा रोड	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) गेहूँ की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.	चारा पर्याप्त.	
जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. अकलतरा	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..				
5. पामगढ़	..				
6. चाम्पा	..				
7. सक्ती	..				
8. जैजैपुर	..				
9. मालखरौदा	..				
10. डभरा	..				
11. शिवरीनारायण	..				
12. बम्हनीडीह	..				
13. सारागांव	..				
14. नया बाराद्वार	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) धान, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		मटर, उड़द व लाख फसल	चारा पर्याप्त.	
4. दर्री	..		की हालत सामान्य है.		
5. पाली	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.		
6. हल्दीबाजार	..				
7. पोड़ीउपरोडा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. खड़ी फसल पर कीड़ों का आक्रमण नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, सरसों व अलसी फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लुण्डा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. लखनपुर	..				
5. उदयपुर	..				
6. सीतापुर	..				
7. बतौली	..				
8. मैनपाट	..				
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	..		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
7. लटोरी	..				
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, आलू व राई सरसों फसल की हालत सामान्य है. अलसी व सरसों की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया-बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर व लाख-तिवड़ा फसल की हालत सामान्य है, फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. खड़गवां	..				
5. चिरमिरी	..				
6. भरतपुर	..				
7. केल्हारी	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) लाख, मसूर, मटर, गन्ना, तिल, गेहूँ फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				
10. सरिया	..				
11. छाल	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) गेहूँ व चना फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				
9. सन्ना	..				

पी. आर. प्रधान,
उप-आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.